



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3095]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2016/पौष 9, 1938

No. 3095]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2016/PAUSA 9, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4224(अ).— केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 2652 (अ) तारीख 08.08.2016 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा त्रिपुरा राज्य के पश्चिम त्रिपुरा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के 6.800 किमी से 14.375 किमी तक के भूखण्ड (अगरतला-उदयपुर सेक्शन) के निर्माण (पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चौड़ा करने, आदि), अनुसूचना, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन 05.09.2016 तारीख को “दैनिक संवाद” और 04.09.2016 तारीख को “डेली देशेर कथा” में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

त्रिपुरा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के 6.800 किमी से 14.375 किमी तक (अगरतला-उदयपुर सेक्शन) भूमि के हिस्से में आ रही इमारत सहित या उसे छोड़कर अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र. सं.	जिले का नाम	तालुका का नाम	गांव का नाम	सर्वे संख्या	प्रकार	प्रकृति	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	भूस्वामियों / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पश्चिम त्रिपुरा	1. बिक्रमनगर	बिक्रमनगर	2859/पी	रायाती	दोकन	20	हरीपदा साहा पुत्र दयाल बन्धु साहा
		2. सूर्यमनीनगर	मधुपुर	4535/7935/पी	अकृषि	बास्तु(टिल्ला)	20	बिमल कांति राँय, अमल कांति राँय, कमल कांति राँय पुत्र मूनल कांति राँय
				5391/10442/पी	रायाती	दोकन	9	पार्थ राँय पुत्र बाबुल चंद्र राँय
				5391/पी	अकृषि	दोकन(टिल्ला)	18	राधा गोविंदा गोस्वामी पुत्र जोगेश चंद्र गोस्वामी
				5000/पी	रायाती	नाल	4	मधु कृष्णा चक्रवर्ती, शुबमय चक्रवर्ती पुत्र
				4999/पी	रायाती	विति(टिल्ला)	16	बलाई भूषण चक्रवर्ती
				5430/11113/पी	रायाती	दोकन(टिल्ला)	15	दुलाल दास पुत्र बरिंद्र चंद्र दास
				4991/10247/पी	रायाती	बास्तु(टिल्ला)	12	सजल कुमार घोष, अमल घोष पुत्र जोगेश चंद्र घोष
				4265/13394/पी	रायाती	टिल्ला	140	बिपिन कुमार शर्मा पुत्र हृदयनाथ शर्मा
योग							254	

[फा. सं. एनएचआईडीसीएल/त्रिपुरा/एलए/2015-16/एनएच-44/एयूएस]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2016

S.O. 4224(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number **S.O. 2652 (E), dated 8th August, 2016**, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/two laning with paved shoulder, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 44 on the stretch of land from **km 6.800 to km 14.375 (Agartala- Udaipur Section)** in the District of West Tripura in the State of Tripura.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Sambad” dated the **5th September, 2016** and “Daily Desher Katha” dated **4th September, 2016**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from km 6.800 to km 14.375 (Agartala-Udaipur section) of the National Highway No. 44 in the State of Tripura

S. No.	Name of the district	Name of the Taluk	Name of the village	Survey Number (s)	Type	Nature	Area in square meter	Name of the Land owner/Interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	West Tripura	1. Bikram Nagar	Bikram Nagar	2859/P	Rayati	Dokan	20	Haripada Saha, S/o- Dayal Bandhu Saha
		2. Surjymini Nagar	Madhupur	4535/7935/P	Akrishi	Bastu (Tilla)	20	Bimal Kanti Roy, Amal Kanti Roy, Kamal Kanti Roy, S/o- Mrinal Kanti Roy
				5391/10442/P	Rayati	Dokan	9	Partha Roy S/o- Babul Ch. Roy
				5391/p	Akrishi	Dokan (Tilla)	18	Radha Govinda Goswami S/o- Jogesh Ch. Goswami
				5000/p	Rayati	Nal	4	Madhu Krishna Chakraborty, Shubamoy Chakraborty S/o- Balai Bhushan Chakraborty
				4999/p	Rayati	Viti (Tilla)	16	
				5430/11113/p	Rayati	Dokan (Tilla)	15	Dulal Das S/o- Birendra Ch. Das
				4991/10247/p	Rayati	Bastu (Tilla)	12	Sajal Kr. Ghosh, Amal Ghosh S/o- Jogesh Ch. Ghosh
				4265/13394/p	Rayati	Tilla	140	Bipin Kr. Sharma S/o- Hridayanath Sharma
				Total			254	

[F. No. NHIDCL/Tripura/LA/2015-16/NH-44/AUS]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.